

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 15.04.2021

SOG व थाना मदनापुर पुलिस की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी,

1.25 करोड अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत की 1.568 किलो फाइन क्वालिटी अफीम के साथ

मादक तस्कर गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम व अपराध मे संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना मदनापुर पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 14.04.21 की SOG व थाना मदनापुर की संयुक्त टीम क्षेत्र मे अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु गश्त मे मामूर थी कि सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया । जिसे टोकने पर व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो संयुक्त टीम द्वारा घेराबन्दी कर कटरा रोड रोसर कोठी के पास गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 1.568 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की गयी । जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 1.25 करोड रुपये है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मदनापुर पर मु0अ0स0 221/21 धारा 8/18 NDPS Act पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण:-

गिर0 किये गये अभि0 बलवीर सिंह पुत्र करनेल सिंह नि0 चन्दोखा थाना मदनापुर जिला शाह0पुर ने बताया कि वह काफी समय से अवैध अफीम की तस्करी कर रहा है तथा अफीम आसपास के किसानों से सस्ती कीमत पर खरीदता था । तथा महंगी कीमत पर जरूरतमंद लोगो को बेचता देता था । पूछताछ के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार किये गये अभि0/तस्कर का नाम पता:-

1- बलवीर सिंह पुत्र करनेल सिंह नि0 चन्दोखा थाना मदनापुर जिला शाह0पुर

बरामदगी:-

1- 1.568 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 1.25 करोड रुपये)

पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री रोहित कुमार, प्रभारी एस0ओ0जी0 शाह0पुर।

2-उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, थाना मदनापुर।

3-मु0आ0 329 राजारामपाल सिंह, मु0आ0 388 अमरजीत सिंह, मु0आ0157 उदयवीर सिंह, एस0ओ0जी शाह0पुर।

4-का0 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, का0 दिलीप सिंह , का0 अजय कुमार, एस0ओ0जी शाह0पुर।

5-का0 1943 कमल, का0 1941 सचिन गंगवार थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर।